



July 02, 2021

**The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited**
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]
Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

**The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India
Limited**
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Scrip code – [COFORGE]

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper publication – Annual General Meeting Intimation

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the “Notice of 29th Annual General Meeting of the Company” in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

**For Coforge Limited
(Erstwhile NIIT Technologies Limited)**

LALIT KUMAR SHARMA
Digitally signed by
LALIT KUMAR SHARMA
Date: 2021.07.02
11:33:00 +05'30'

**Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel**

Encl as above:

TATA POWER
The Tata Power Company Limited
(Corporate Contracts Department)
Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station,
Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E),
Mumbai-400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-47173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for participation in following tender:

"Sale of Fly Ash from Malithon Power Limited through Bulklers (Tender Ref: CC/FY22/VK/MPL Fly Ash Sale)"

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security etc., please visit Tender section of our website URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>. Eligible bidders willing to participate may submit their EOI along with the tender fee by 12th July, 2021, for issue of tender documents.

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
10-3-311/A, CASTLE HILLS, MASAB TANK,
HYDERABAD-500 028. Tel: 0091-40-23538710/ 23538713 to
23538721 Ext: 229 CIN: L13100TG1958GOI001674
Email: jpsingh@nmdc.co.in; bmkumar@nmdc.co.in; jvenkatesan@nmdc.co.in
Tender No. HQMM/3009-20/110000020/296 Dt: 01-07-2021

OPEN TENDER NOTICE

Tenders are invited through e-procurement mode for supply of following items:

Description of Equipment	Qty (No.)	Pre Bid Meeting	Display & Sale of Tender Documents Period	Last date & Time for submission of offer	Tender Fee (Rs.)
Supply and Supervision of Erection and Commissioning of 01 No. 6" Diesel Driven Blast Hole Drill with COST CAP Spares - 6 Years/ 12000 Hrs. Operation whichever is earlier for Donimalai Complex	01	09.07.2021 at 11 AM	DRAFT 01.07.2021 to 09.07.2021 FINAL 23.07.2021 to 23.08.2021	23.08.2021 By 02:36 PM (IST)	Rs. 5,900/-

Complete Tender document is available in websites: www.nmdc.co.in under tender section www.mstccommerce.com/eproc/home; <http://eprocure.gov.in>. Any corrigendum to the above tender will be updated only on our website www.nmdc.co.in and will not be published. Prospective bidders should visit the above NMDC Limited website from time to time to take note of corrigendum, if any. For further details logon to Tender Section of our website: www.nmdc.co.in under tender section.
Chief General Manager (Materials)

SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED

CIN: L74999MH1995PLC085878
Registered office: "Solar" House, 14, Kachimet, Amravati Road, Nagpur - 440023.
Phone: 0712-6634555/50
Fax: 0712-2500200/2560202
E-mail: investorrelations@solargroup.com
Website: www.solargroup.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

In order to send Annual Reports, Notices and other communications to the shareholders in electronic form, we request to the members of Solar Industries India Limited who have not yet registered their email address or Bank account details, to register the same in respect of shares held in electronic form with the depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited.

Pursuant to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs, the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's Annual Report and notice of the Annual General Meeting (including E-voting instructions) electronically, the members may temporarily update their email id's with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited by using link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided thereon or before July 30, 2021.

For Solar Industries India Limited
Sd/-
Khushboo Pasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Nagpur
Date : 01.07.2021

TELANGANA STATE POWER GENERATION CORPORATION LIMITED
VIDYUT SOUHA : HYDERABAD - 500 082.
T.No.E-10/CE/Civil/Thermal/TSGENCO/2021-22

YTSP - Design, Engineering, Supply & Construction of Intake Structure, Raw Water pump House and laying of MS Pipeline (2 Nos) from pump house to Raw Water Reservoir including Civil, Mechanical and Electrical works for drawal of 150 Cusecs of water throughout the water Reservoir of Yadadri Thermal Power Station, Veerlepalem (V), Dameracherla (Md), Nalgonda Dist. Value of the Works: ₹. 6,72,46,000/- Scheduled Open & Closing Date: 19.06.2021 at 17:00 Hrs & 20.07.2021 at 15:00 Hrs.

T.No.E-63/CE/O&M/KTSP VII Stage/EM-VII/P12/TSGENCO/21-22

KTSP-VII Stage - Procurement of various LT Motors for Kothagudem Thermal Power Station, Stage-VII, Palancha, Bhadradi Kothagudem Dist. Value of the Works: ₹. 16,12,500/- Scheduled Open & Closing Date: 19.06.2021 at 17:30 Hrs & 09.07.2021 at 15:30 Hrs.

For further Details: www.tsgenco.co.in & <https://tender.telangana.gov.in>

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

Regd. Office :- PSEB H.O. Building, The Mall, Patiala
Corporate Identification Number (CIN) : U40109PB2010GOC33813
Contact NO. 96461-06022

Tender Enquiry No. 02/CE/JAL/2021-22 Dated: 30.06.2021

Chief Engineer/DS North Zone, PSPCL, Jalandhar invites e-tender for work of attending to or resolving the Fuse-Off-Call Complaints & LT/HT line Breakdowns for restoration of Electrical Power Supply in the various Sub-divisions under CE/DS, North Zone, Jalandhar. For detailed NIT and Tender Specifications, please refer to <http://eproc.punjab.gov.in> from 30.06.2021, (05.00 PM onwards.)

NOTE: Corrigendum and addendum, if any will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in>

Chief Engineer/DS North Zone, PSPCL, Jalandhar
C 253/21
76155/12/338/2021/5676

TARC Limited
(Formerly known as Anant Raj Global Limited)
(Corporate Identity Number L70100HR2016PLC065615)
Registered Office: G-002, MACEO, Sector-91, Gurugram, Haryana (India)-122505
Corporate Office: C-3, Qutab Institutional Area, Katwaria Saria, New Delhi (India)-110016
Tel.: 011-41244300, E-mail:tarc@tarc.in, Website: www.tarc.in

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2021:
(Rs. in Lakhs except per share data)

Particulars	Consolidated			
	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited as Restated)
Total income from operations	9,470.10	5,968.37	22,066.98	19,103.30
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	172.64	50.91	92.72	6,471.47
Net Profit for the period after tax	95.19	149.41	617.26	5,310.31
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.77	132.23	663.14	5,286.39
Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share Rs. 2/-)	5,901.93	5,901.93	5,901.93	5,901.93
Other Equity	-	-	150,524.97	149,861.38
Earnings per share (Quarterly not annualised):				
Basic (Rs.)	0.03	0.05	0.21	1.80
Diluted (Rs.)	0.03	0.05	0.21	1.80

Key Numbers of Audited Standalone Financial Results
(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited as Restated)
Total income from operations	7,193.29	7,214.29	17,945.58	11,807.11
Profit before tax	325.18	116.90	527.48	265.98
Profit after tax	217.86	252.50	491.18	440.35
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	220.34	250.25	536.96	431.35
Other Equity	-	-	142,594.31	142,057.35

1. The above audited standalone and consolidated results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 30, 2021. The Statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these standalone and consolidated financial results.

2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company website www.tarc.in.

On behalf of Board of Directors
Sd/-
Amar Sarin
Managing Director & CEO

Place : New Delhi
Date : June 30, 2021

CHEMFAB ALKALIS LIMITED
CIN:L24290TN2009PLC071563
Regd. Office: Team House, GST Road, Vandalur, Chennai 600 048.
Website: www.chemfabalkalis.com Email: chemfabalkalis@draaholdings.com
Phone No: +91 44 22750323 Fax No: +91 44 22750860

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
12th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The 12th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, August 04, 2021 at 10:00 A.M IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.chemfabalkalis.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of CDSL (agency for providing the e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM.

Members seeking to inspect such documents can send an email to ccaldcs@draaholdings.com.

Instruction for E-voting and joining Meeting through VC/OAVM:
The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes electronically, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("E-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by electronically will be able to vote at the AGM. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail as well as available in the Annual Report. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. The manner of e-voting and shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.chemfabalkalis.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of CDSL, at www.evotingindia.com. The e-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Sunday, August 01, 2021
End of remote e-voting: 5:00 p.m. on Tuesday, August 03, 2021
The e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Wednesday, July 28, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and to cast AGM e-voting.

Manner of registering/Updating email addresses is as below:
Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at ccaldcs@draaholdings.com or to CAMEO at jessy@cameoindia.com. Members holding shares dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
After due verification, the Company / CDSL will forward their login credentials to their registered email address.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and CDSL website.

Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQS" sections /E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of CDSL website.
All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

By order of the Board of Directors
Sd/-
V.Rajesh
Company Secretary and Compliance officer

Place : Chennai
Dated : 01.07.2021

Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)
CIN: L72100DL1992PLC048753
Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.
Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900
Email: investors@coforgetech.com
Website: <https://www.coforgetech.com>

NOTICE- 29th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited) (the Company) for financial year 2020-21 will be held on Friday, July 30, 2021 at 09:00 AM through Video Conference facility ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 respectively and clarification circular 02/2021 dated January 13, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 along with Notice convening the AGM will be sent in due course only through email to all those Members whose email address is registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be made available at www.coforgetech.com, stock exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the NSDL website at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The instruction for attending the meeting through VC/OAVM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

The members holding shares in physical form are requested to consider converting their physical shares into dematerialized and eliminate all risks associated with the physical shares.

Procedure for registration of email addresses and bank details:
Members holding shares in physical/demat form and who are yet to register/update their email IDs are requested to approach NSDL/CDSL (Depository Participant) in case of dematerialized shares. In case shares are held in physical form, Members are requested to send their request letters to Alankit Assignments Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 ("RTA") signed by all the shareholders along with self-attested copies of PAN Card and address proof to register their email IDs. Similarly, the Members may also reach out to the above mentioned for updation of Bank account details with Request letter, ID Proof & a copy of cancelled cheque. In case of any query you may write to Investor Services at investors@coforgetech.com or rta@alankit.com.

For Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)
Sd/-
Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel
FCS: 6218

Dated : July 01, 2021
Place : Noida

Union Bank of India
Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021.
Website: www.unionbankofindia.co.in
Email: investorservices@unionbankofindia.com

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM AND INTIMATION OF CUT-OFF DATE

Dear Shareholder,

NOTICE is hereby given that the 19th (Nineteenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on Tuesday, August 10, 2021 at 11:00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs(MCA) vide circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 15th June 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020 and 13th January, 2021 respectively, ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the above guidelines, the AGM of the Bank will be held through VC/OAVM.

The Shareholders are further informed that:

- The Notice of the AGM and the Annual Report including the financial statements for the year ended on March 31, 2021 will be sent only by email to all those shareholders, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- The instructions for joining the AGM and the manner for participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the detailed Notice of the AGM.
- The Annual Report along with Notice of AGM will also be hosted on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com.
- In case you have not registered your email address with the Bank or Depository Participant, please follow below instructions to register your email ID:

Physical Shareholding	Send a duly signed request letter to the RTA of the Bank mentioning your email ID, mobile number and folio number to the following address: Datamatics Business Solutions Ltd., Unit: Union Bank of India, Plot No. B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093 You may also send scanned copy of the request letter to ubiinvestors@datamaticsbpm.com
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) with whom you are maintaining the demat account and register your email address as per the process advised by your DP.

- The shareholders who have not registered their email ID can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the web link - <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>. The detailed process of participating in the AGM through VC / OAVM is also given in the Notice of the AGM.
- Bank has fixed Monday, July 12, 2021 as the Cut-off date to consider the names of the shareholders entitled to participate in the election i.e., to nominate and contest in the election of ONE Director from amongst shareholders other than the Central Government.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA
Sd/-
(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 01.07.2021

ZODIAC
FINEST QUALITY CLOTHING

EXTRACT FROM THE STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		QUARTER ENDED ON			YEARENDED ON			QUARTER ENDED ON			YEARENDED ON		
		Mar 31, 2021 (Refer Note 'd' below)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Mar 31, 2020 (Refer Note 'd' below)	Mar 31, 2020 (Audited)	Mar 31, 2020 (Audited)	Mar 31, 2021 (Refer Note 'd' below)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Mar 31, 2020 (Refer Note 'd' below)	Mar 31, 2021 (Audited)	Mar 31, 2020 (Audited)		
1.	Total Income from operations	3,848	3,242	4,667	13,249	20,683	3,872	3,241	4,707	12,751	20,296		
2.	Net Loss for the period before tax	(535)	(696)	(639)	(2,317)	(2,335)	(562)	(721)	(717)	(2,977)	(3,005)		
3.	Loss for the period after tax	(502)	(696)	(580)	(2,391)	(2,132)	(530)	(713)	(681)	(2,938)	(2,897)		
4.	Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(412)	(546)	(1,312)	(2,198)	(3,278)	(446)	(579)	(1,177)	(2,797)	(3,733)		
5.	Paid up Equity Share Capital	2,476	2,248	2,248	2,476	2,248	2,476	2,248	2,248	2,476	2,248		
6.	Other Equity				20,326	20,252				23,137	23,662		
7.	Loss Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (in Rs.)												
	1. Basic:	(2.23)	(3.10)	(2.58)	(10.61)	(9.65)	(2.35)	(3.17)	(3.03)	(13.04)	(13.10)		
	2. Diluted:	(2.23)	(3.10)	(2.58)	(10.61)	(9.65)	(2.35)	(3.17)	(3.03)	(13.04)	(13.10)		

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.zodiaconline.com.
b) The Central/State Government authorities had imposed various restrictions to control the spread of Covid-19 pandemic during the year and consequently, the low market demand had affected the Company's operations for the year ended March 31, 2021. However, the Company had taken various steps including cost reduction measures, bringing in operational synergies etc. to ensure sufficient liquidity for the Company's operations. Towards the end of the current year, the second wave of Covid-19 pandemic hit the country and has once again resulted in disruption of business as State government authorities had announced partial/complete lockdown. With easing of certain restrictions in June 2021 by State government authorities, the Management expects demand to revive. The Company's Management has done an assessment of the situation (including the liquidity position after taking into consideration continuing cost reduction measures, available investments, surplus funds with the Group, undrawn bank facilities etc.), and carrying value of all its assets and liabilities as at March 31, 2021 and concluded that there are no material adjustments required in the financial statements as at March 31, 2021. However, the impact assessment due to COVID-19 is a continuing process given the uncertainty associated with its nature and duration. The Company will continue to monitor any material changes as the situation evolves.
c) The Company has allotted 22,81,854 equity shares of face value of Rs.10 each at a premium of Rs.99.56 per equity share on preferential basis to two promoters of the Company on March 23, 2021 and March 25, 2021 equally amounting to Rs.2,500 Lakhs.
d) The figures for the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published year to date figures upto third quarter of the financial year.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
S. Y. NOORANI
Vice Chairman & Managing Director
DIN : 00068423

ZODIAC CLOTHING COMPANY LTD.
Regd. Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030.
Tel : 022-66677000, Fax : 022-66677279,
Website : www.zodiaconline.com, Email Id : cosecy@zodiacm.com
CIN: L17100MH1984PLC033143

Place: Mumbai
Date: June 30, 2021

ZODIAC
FINEST QUALITY CLOTHING
ZODIAC
ZODIAC
ZODIAC
ZODIAC